

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

एक मिनी रत्न कंपनी
(कोल इण्डिया लिमिटेड का एक अंग)
जन सर्मक विभाग
कोयला भवन, कोयला नगर
धनबाद - 826005 (झारखण्ड)
दूरभाष/फैक्स : 0326-2230202
वेबसाईट: www.bccl.gov.in
ईमेल: bcclprodhanbad@gmail.com
सीआईएन : U10101JH1972GOI000918



BHARAT COKING COAL LIMITED
'A Mini Ratna Company'
(A Subsidiary of Coal India Limited)
Public Relation Department
Koyla Bhawan, Koyla Nagar
Dhanbad- 826005 (Jharkhand).
Phone/Fax: 0326-2230202
website: www.bccl.gov.in
email: bcclprodhanbad@gmail.com
CIN : U10101JH1972GOI000918

दिनांक: 12 अप्रैल, 2018

प्रेस विज्ञप्ति

बीसीसीएल में ऑनलाईन सीएमपीएफ खाता संख्या आबंटित करने हेतु कार्यशाला आयोजित

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में दिनांक 12 अप्रैल, 2018 को कोयला भवन तल-3 सभागार में नवनियुक्त होने वाले कार्मिकों तथा ठेका मजदूरों के ऑनलाईन माध्यम से सीएमपीएफ खाता खाता संख्या आबंटित करने तथा ठेकेदारों का सबरजिस्ट्रेशन करवाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से एकदिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उदघाटन श्री ए के सिन्हा, अपर आयुक्त, सीएमपीएफओ और श्री राजपाल यादव, महाप्रबंधक (का.)/पीएफ व पेंशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। श्री राजपाल यादव ने सभी को ऑनलाईन सीएमपीएफ खाता संख्या आबंटन का महत्व बताते इसे अतिशीघ्र क्रियान्वित करने के लिए कहा। यह कार्यशाला दो सत्रों में आयोजित की गई।

प्रथम सत्र में बीसीसीएल के क्षेत्र संख्या 1 से 6 तक के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें लगभग 100 प्रतिभागियों ने भागीदारी की। कार्यशाला के द्वितीय सत्र बीसीसीएल के क्षेत्र संख्या 7 से 12, एमआरएस, केंद्रीय चिकित्सालय, सीसीडब्ल्यूओ, बीटीए,आरएच भूली के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें लगभग 70 प्रतिभागियों ने भागीदारी की।

दोनों ही सत्रों में प्रशिक्षण सीएमपीएफ की ईडीपी विभाग की टीम द्वारा प्रदान किया गया। इस टीम में श्री आर के पी सिन्हा, सहायक आयुक्त, श्री अभिषेक नंदन, परामर्शदाता, ईडीपी और श्री सौरभ सिन्हा सम्मिलित थे।

कार्यशाला का संचालन श्री अभिषेक राय, सहायक प्रबंधक (कार्मिक) द्वारा एवं धन्यवाद ज्ञापन श्री पी के सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त) द्वारा दिया गया।

इस अवसर पर प्रमुख रूप से श्री एस के सिंह, निदेशक (का.) के तकनीकी सचिव, श्री भवानी बंदोपाध्याय समेत पीएफ व पेंशन विभाग की पूरी टीम उपस्थित रही।

